

## जनपद बाराबंकी

दिनांक 03.06.2022

स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना सतरिख पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाइल, लैपटॉप, आधार कार्ड, पैनकार्ड, डीएल व चार पहिया वाहन आदि बरामद-

वादी विशाल श्रीवास्तव निवासी राजाजीपुरम लखनऊ द्वारा थाना सतरिख पर सूचना दी कि दिनांक 15.12.2021 को प्रतियोगी परीक्षा देने IFACT एकडेमी अयोध्या रोड आया था तथा परीक्षा देने के उपरांत मेरी स्कूटी से मेरा मोबाइल व पर्स व नकद रूपये गायब था और मेरे दो बैंक खातों से 94,000/-रूपये निकाले जा चुके हैं। इस सम्बन्ध थाना सतरिख पर मु0अ0सं0-352/21 धारा 379 भादवि व 66 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना के सफल अनावरण हेतु स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना सतरिख पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलीजेन्स एवं डिजिटल डेटा की मदद से आज दिनांक 03.06.2022 को अभियुक्त धर्मद्र प्रताप पुत्र हरी सिंह निवासी म0नं0-304 भौवापुर हसनपुर डिपो थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 07 अदद चोरी का मोबाइल, 03 अदद आधार कार्ड, 03 अदद ड्राइविंग लाइसेंस, 05 अदद मोबाइल सिम, 01 अदद पैन कार्ड, 01 अदद एटीएम कार्ड, 01 अदद मेट्रो कार्ड व घटना में प्रयुक्त 01 अदद लैपटॉप एवं चार पहिया वाहन नम्बर UP 14 BJ 8089 बरामद किया गया। अभियोग में धारा 411/419/420/467/468/471/120बी भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्त उपरोक्त का एक साथी प्रिन्स कुमार की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन कर प्रयास किया जा रहा है।

पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम लोग योजना बनाकर स्कूलों, कालेजों में परीक्षा देने आए लोगों के स्कूटी की डिग्गी से पर्श, मोबाइल, विभिन्न कार्डों आदि की चोरी कर लेते हैं। इसके उपरान्त मोबाइल में लगे सिमकार्डों के माध्यम से एटीएम कार्ड से सम्बन्धित बैंक खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से बैंको को टेक्सट मैसेज कर एटीएम कार्ड का नया पिन/पासवर्ड नम्बर जनरेट कर उनके खाते से पैसों की निकासी/खरीदारी कर लेते हैं। कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किये गये मोबाइल सिम के माध्यम से आधार कार्ड व डीएल आदि बनवा रखे हैं जिसका प्रयोग भिन्न-भिन्न शहरों में घटना को अंजाम देने के लिए रूकने आदि के लिए प्रयोग करते हैं। अभियुक्त द्वारा जनपद बाराबंकी की घटनाओं के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-809/21 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0-324/2022 धारा 379 भादवि तथा थाना जहांगीराबाद पर मु0अ0सं0-79/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया है।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

धर्मद्र प्रताप पुत्र हरी सिंह निवासी म0नं0-304 भौवापुर हसनपुर डिपो थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद।

### बरामदगी-

1-09 अदद चोरी का मोबाइल,  
2-03 अदद आधार कार्ड,

- 3-03 अदद ड्राइविंग लाइसेंस,
- 4-05 अदद मोबाइल सिम,
- 5-01 अदद पैन कार्ड,
- 6-01 अदद एटीएम कार्ड,
- 7-01 अदद मेट्रो कार्ड व
- 8-घटना में प्रयुक्त 01 अदद लैपटॉप
- 9- चार पहिया वाहन नम्बर UP 14 BJ 8089

**पुलिस टीम:-**

**सर्विलांस/स्वाट टीम-**

1. उ०नि० श्री विजय बहादुर पाण्डेय प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद बाराबंकी।
2. उ०नि० श्री करुणेश पाण्डेय स्वाट टीम जनपद बाराबंकी।
3. हे०का० जितेंद्र वर्मा, हे०का० मजहर अहमद सर्विलांस सेल जनपद बाराबंकी।
4. का० जुबेर खान, का० अनुज वर्मा सर्विलांस सेल जनपद बाराबंकी।
5. का० जरनैल सिंह, का० सुधाकर सिंह भदौरिया सर्विलांस सेल जनपद बाराबंकी।
6. का० दिव्यांश यादव, का० शैलेंद्र कुमार सर्विलांस सेल जनपद बाराबंकी।
7. हे०का० तनवीर अहमद, का० धर्मेन्द्र कुमार स्वाट टीम जनपद बाराबंकी।

**थानाटीम -**

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री लालचन्द्र सरोज थाना सतरिख जनपद बाराबंकी
- 2-प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव थाना जहांगीराबाद जनपद बाराबंकी
- 3-उ०नि० श्री अभिषेक कुमार, चौकी प्रभारी मोहद्दीपुर थाना सतरिख जनपद बाराबंकी
- 4-हे०का० सन्तोष यादव, का० कमल सिंह , का० सुनील सिंह थाना सतरिख जनपद बाराबंकी.
- 5-का० प्रवीण शुक्ला थाना जहांगीराबाद जनपद बाराबंकी।